



INTELLECTUAL  
PROPERTY INDIA

PATENTS | DESIGNS | TRADE MARKS  
GEOGRAPHICAL INDICATIONS



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

पेटेंट कार्यालय  
THE PATENT OFFICE

पेटेंट प्रमाणपत्र  
PATENT CERTIFICATE  
(Rule 74 Of The Patents Rules)

क्रमांक : 022117408  
SL No :



पेटेंट सं. / Patent No. : 392792  
आवेदन सं. / Application No. : 202021005460  
फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 07/02/2020  
पेटेंटी / Patentee : DR. VISHWANATH VITHAL BHOSALE  
आविष्कारक (जहां लागू हो) / Inventor(s) : 1.DR. JAYAVANT LAXMAN GUNJAKAR 2.MR. SHRIKANT  
VAIJU SADAVAR 3.MR. NAVNATH SHANKAR  
PADALKAR 4.MISS. ROHINI BALASO SHINDE 5.DR.  
RAVINDRA NATHUJI BULAKHE 6.PROF.  
CHANDRAKANT DNYANDEV LOKHANDE 7.DR.  
VISHWANATH VITHAL BHOSALE

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित A METHOD OF PREPARATION OF AN SUPERCAPACITOR ELECTRODE BASED ON COBALT CHROMIUM LAYERED DOUBLE HYDROXIDE PILLARED WITH POLYOXOVANADATE". नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, १९७० के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 7th day of February 2020 से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled A METHOD OF PREPARATION OF AN SUPERCAPACITOR ELECTRODE BASED ON COBALT CHROMIUM LAYERED DOUBLE HYDROXIDE PILLARED WITH POLYOXOVANADATE". as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 7th day of February 2020 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



अनुदान की तारीख : 24/03/2022  
Date of Grant :

पेटेंट नियंत्रक  
Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 7th day of February 2022 को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 7th day of February 2022 and on the same day in every year thereafter.